



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक 1934 (श0)  
(सं0 पटना 595) पटना, शुक्रवार, 2 नवम्बर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

1 नवम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि०-1-10/2012/9743—संलग्न सूची परिशिष्ट-1 में अंकित नगर पंचायत पैक्स के अवक्रमित रहने एवं उनका निर्वाचन देय रहने के कारण उनकी मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.08.2012 निर्धारित करते हुए मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम प्राधिकार के पत्रांक-9653 दिनांक 16.10.2012 द्वारा सूचित किया जा चुका है।

2. राज्य निर्वाचन प्राधिकार संलग्न सूची परिशिष्ट-1 में अंकित नगर पैक्सों का चुनाव निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियत करता है तथा संबंधित पैक्स के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन पैक्स के पदधारकों को निर्वाचित करें :-

#### निर्वाचन कार्यक्रम

1.	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	06.11.2012 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि	08.11.2012 (गुरुवार)
3.	संवीक्षा की तिथि	10.11.2012 (शनिवार)

4.	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	16.11.2012 (शुक्रवार)
5.	मतदान, अगर आवश्यक हो	23.11.2012 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
6.	मतगणना	23.11.2012 मतदान समाप्ति के पश्चात्

3. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 06.11.2012 को प्राधिकार के पत्रांक-343 दिनांक 12.05.2009 के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 595-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>